




Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

*Provisional Certificate
for COVID-19 Vaccination
(1 st Dose)*



Beneficiary Details

Beneficiary Name / लाभार्थी का नाम
R Nanthini

Age / उम्र
27

Gender / लिंग
Female

ID Verified / पहचान पत्र सत्यापित
Voter ID # ZZK2172013

Beneficiary Reference ID
31544364865586

Residing at / पता
Kanyakumari
Tamil Nadu

Vaccination Details

Vaccine Name / वैक्सीन का नाम
COVISHIELD

Date of Dose / खुराक की तारीख
03 Mar 2021 (Batch no. 4120Z015)

Next Due Date / अगली नियत तिथि
after 28 days

Vaccinated by / टीका लगाने वाले का नाम
Rose mary

Vaccination at / टीकाकरण का स्थान
Agastheeswarm PHC, Kanyakumari
Tamil Nadu

“ दवाई भी और कड़ाई भी।
Together, India will defeat COVID-19 ”
- Prime Minister



In case of any adverse events, kindly contact the nearest Public Health Center/Healthcare Worker/District Immunization Officer/State Helpline No. 1075

टीकाकरण पश्चात किसी प्रतिकूल घटना के होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र/स्वास्थ्य कर्मी/जिला टीकाकरण अधिकारी/राज्य हेल्प लाइन 1075 पर सम्पर्क करें